



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 1982/आश्विन 28, 1904

No. 306]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 1982/ASVINA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

गृह संचालय  
(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1982

सां० का० नि० 618(अ) :—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग)  
नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) तथा (2) के प्रथम परस्युक  
के साथ पठित अधिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61)  
की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते  
हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय  
प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे  
संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग  
में पद संख्या का नियतन) अधिनियम संशोधन विनियम, 1982 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने लायक से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या का नियतन) विनियम,  
1955 की धनुसूची में 'पश्चिमी बंगाल' के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों  
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात् :—

"पश्चिमी बंगाल"

1. राज्य सरकार के अधीन बरिष्ठ पद	145
सरकार के मुख्य सचिव	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1

सचिव, गृह (का० और प्र० सु०) विभाग	1
सचिव, गृह विभाग	1
सचिव, लोक निर्माण विभाग	1
सचिव, विकास और योजना	1
प्रमण्डल प्रायुक्त	3
सरकार के सचिव/विशेष सचिव	19
अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सचिव, राजस्व बोर्ड	1
निदेशक, पृ-अभिलेख तथा सर्वेक्षण	1
निदेशक, सरकारी वाहन विभाग	1
निदेशक, पंचायत	1
प्रायुक्त, वाणिज्य कर	1
सरकार के संयुक्त/उप सचिव	36
विशेष सचिव, राजस्व बोर्ड	1
निदेशक, सार्व तथा कुटीर उद्योग	1
निदेशक, मूल्यांकन, विकास तथा योजना विभाग	1
निदेशक, धनुसूचित जाति और धनुसूचित जन जाति	
कल्याण	1

निदेशक, आसनसोल योजना संगठन तथा मुख्य	
कार्यकारी अधिकारी, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण	1
निदेशक, राधानिग	1
निदेशक, जिला वितरण, बसूरी तथा पूर्ति	1
अथ आयुक्त	1
निदेशक, स्थानिय निकाय एवम् पदेन उप सचिव,	
स्थानिय शासन तथा ग्रामी विकास विभाग	1
सचिव, सतर्कता आयोग	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
जिला मजिस्ट्रेट तथा कलैक्टर	15
अपर जिला मजिस्ट्रेट	25
अपर कार्यकारी, अधिकारी, जिला परिषद	15
भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, कलकत्ता	1
बंदोबस्त अधिकारी	3
विशेष अधिकारी, पर्वतीय कार्य शाखा	
सचिवालय तथा पदेन अपर उपायुक्त	
(विकास) बाजिलिंग	1

145

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	
उपयुक्त 1 के 40% के हिसाब से	58
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954	
के नियम 8 के अधीन पदोन्नति तथा प्रवर्णन	
द्वारा भरे जाने वाले पद	
(उपयुक्त 1 और 2 के 33½% के हिसाब से)	67
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद	
(उपयुक्त 1 और 2 में से 3 घटा कर)	136
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपयुक्त मध 4 के 22.5% के हिसाब से)	52*
6. छुट्टी रिजर्व (उपयुक्त मध 4 के 5.62% के हिसाब से)	8
7. कनिष्ठ पद (उपयुक्त मध 4 के 23.17% के हिसाब से)	32
8. प्रशिक्षण रिजर्व (उपयुक्त मध 4 के 11.91% के हिसाब से)	16
सीधी भर्ती वाले पद	244
पदोन्नति वाले पद	67
कुल प्राधिकृत संख्या	311

\*इनमें 21 तदर्थ पद शामिल हैं।

[सं० 11031/11/82-अ० भा० से० (ii)-क]

टिप्पणी (i) : इस अधिसूचना के जारी होने से पहले पश्चिम बंगाल संघर्ष की कुल प्राधिकृत पद संख्या 311 थी।

टिप्पणी (ii) : समू विनियम दिनांक 22-10-1955 के एस० आर० भो० संख्या 3350 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे। पश्चिमो बंगाल संघर्ष के संबंध में विनियमों को दिनांक 22-9-73 के सा० का० वि० सं० 450 (अ); दिनांक 26-8-74 के 373 (अ), दिनांक 25-1-75 के 95, दिनांक 25-6-76 के 424 (अ), दिनांक 28-10-77 के 654 (अ), दिनांक 29-7-78 के 951, दिनांक 16-12-80 के 176 दिनांक 18-3-80 के 104 (अ), दिनांक 7-10-80 के 571 (अ) द्वारा संशोधित किए गए हैं।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th October, 1982

G.S.R. 618(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Eighth Amendment Regulations, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "West Bengal" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

## "West Bengal"

1. Senior Posts under the State Government	145
Chief Secretary to the Government	1
Member, Board of Revenue	1
Secretary, Home (P&AR) Department	1
Secretary, Home Department	1
Secretary, Public Works Department	1
Secretary, Development and Planning	1
Commissioner of Division	3
Secretary/Special Secretary to Government	19
Additional Member, Board of Revenue	1
Director, Administrative Training Institute	1
Secretary to Governor	1
Secretary to Chief Minister	1
Secretary, Board of Revenue	1
Director of Land Records and Surveys	1
Director of Public Vehicles Department	1
Director of Panchayats	1
Commissioner for Commercial Taxes	1
Joint/Deputy Secretary to Government	36

Special Secretary, Board of Revenue	1
Director of Cottage and Small Scale Industries	1
Director of Evaluation, Development and Planning Department	1
Director of Scheduled Castes and Tribes Welfare	1
Director, Asansol Planning Organisation and Chief Executive Officer, Durgapur Development Authority	1
Director of Rationing	1
Director of District Distribution, Procurement and Supply	1
Labour Commissioner	1
Director, Local Bodies and ex-officio Deputy Secretary, Local Government and Urban Development Department.	1
Secretary, Vigilance Commissioner	1
Registrar of Cooperative Societies	1
Additional Registrar of Cooperative Societies	1
District Magistrate and Collector	1
Additional District Magistrate	25
Additional Executive Officer, Zilla Parishad	15
Land Acquisition Collector, Calcutta	1
Settlement Officer	3
Special Officer, Hill Affairs Branch Secretariat and ex-officio, Additional Deputy Commissioner (Development) Darjeeling	1
	145
2. Central Deputation Reserve at the rate of 40% of item 1 above	58
3. Posts to be filled up by promotion and selection under rule 8 of the IAS (Recruitment) Rules, 1954@ 33.1/3% of items 1 & 2 above.	67
4. Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	136
5. Deputation Reserve at the rate of 22.5% of item 4 above	52*
6. Leave Reserve at the rate of 5.62% of item 4 above	8
7. Junior posts at the rate of 23.17% of item 4 above	32
8. Training Reserve at the rate of 11.91% of item 4 above	16
Direct Recruitment Posts	244
Promotion posts	67
Total Authorised Strength	311

\*Includes 21 posts as ad-hoc increase.

[No. 11031/11/82-AIS-(II)-(A)]

NOTE : (i) Prior to issue of this notification the total authorised strength of IAS Cadre of West Bengal was 311.

(ii) The principal Regulations were published in the Gazette vide SRO No. 3350 dated 22-10-1955. The Regulations in respect of West Bengal Cadre have been amended vide GSR Nos. 450(E) dated 22-9-73, 373(E) dt. 26-8-74, 95 dt. 25-1-75, 424(E) dt. 25-6-76, 654(E) dt. 28-10-77, 951 dt. 29-7-78, 176 dt. 16-2-80, 104(E) dt. 18-3-80, 571(E) dt. 7-10-80.

सां. कां. निं. 619(अ) :—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित प्रचलित भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और प्राये संशोधन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1982 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में अनुसूची III-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के समय वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पद, सारणी में, प्रथम कालम में आने वाली 'पश्चिम बंगाल' प्रविष्टि में दूसरे तथा तीसरे कालम में तत्संबंधी प्रविष्टि

'अपर मुख्य सचिव' रं. 3000/-  
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ।

'सचिव, गृह (पी० एण्ड ए० आर०) विभाग' रं. 3000/-

सचिव, गृह विभाग रं. 3000/-

सचिव, लोक निर्माण विभाग रं. 3000/-

[संख्या 11031/11/82-प्र०सांसे० (II) (अ)]

एम० पी० कुदुप, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी :—प्रधान नियम दिनांक 14-9-1954 के गजट संख्या 158 के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पश्चिम बंगाल के संबंध में प्रधान नियमों की अनुसूची III को क्रमशः दिनांक 26-8-74, 25-6-76, 1-11-76, 28-10-77, 29-7-78 और 7-10-80 की सां. कां. निं. संख्या 374 प्र०, 425 प्र०, 859अ०, 655(अ), 952 और 572 प्र० द्वारा संशोधित किया गया है।

G.S.R. 619(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, in Schedule III, under the heading "A—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments", in the Table, against the entry "West Bengal" occurring in the first column, for the corresponding entries in the second and third columns, namely "Additional

Chief Secretary—Rs. 3000/-", the following shall be substituted, namely :—

"Secretary, Home (P&AR) Department	—Rs. 3000/-
Secretary, Home Department	—Rs. 3000/-
Secretary, Public Works Department	—Rs. 3000/-

[No. 11031/11/82-AIS (II)-B]  
M.P. KURUP, Desk Officer.

NOTE : The Principal Rules were published vide Gazette No. 158 dated 14-9-1954. Schedule III of the Principal Rules in respect of West Bengal have been amended vide G.S.R. Nos. 374(E) dated 26-8-74, 425(E), dated 25-6-76, 859(E), dt. 1-11-76, 655(E) dt. 28-10-77, 952, dt. 29-7-78 and 572(E) dated 7-10-80.